

प्रेस नोट

दिनांक 07.06.2022

सराहनीय कार्य थाना जायस

चोरी की 05 अदद मोटरसाइकिल व 1.2 किग्रा0 गांजा के साथ 02 अन्तर्जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.06.2022 को उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना जायस मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान जायस-नसीराबाद रोड गंगाराम पुरवा के पास दो अलग-अलग मोटरसाइकिल पर सवार 02 अभियुक्त 1.अनीश उर्फ शेरा पुत्र मो0 फिरोज उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बेहटा मुर्तजा थाना जायस जनपद अमेठी व 2.सैफ पुत्र मो0 समीम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला जेर मस्जिद हटिया थाना जायस जनपद अमेठी को समय करीब 05:45 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेण्डर बिना नं0 व पैशन एक्स प्रो यूपी 70 सीएन 6668 के कागज मांगने पर दिखा न सके तथा बताया कि यह दोनों मोटरसाइकिल चोरी की है जिसे हमलोगों ने गौरीगंज व जनपद प्रयागराज से चोरी किया है। हम लोग अलग-अलग जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं बाद में उनका नंबर प्लेट बदलकर एक जगह छिपाकर रख देते हैं तथा बाद में धीरे-धीरे बेच देते हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर बनिया का पुरवा कोल्डस्टोर के पास झाड़ियों से 03 अदद अन्य मोटरसाइकिल 1.हीरोहाण्डा सीडी डीलक्स सं0 डीएल 75 बीडी 5778, 2.हीरो स्पेलेण्डर यूपी 44 पी 2160, 3.हीरो सुपर स्पेलेण्डर यूपी 33 एएक्स 8809 बरामद हुई, जिसे जनपद सुल्तानपुर व रायबरेली से चोरी करना बताया। मोटरसाइकिल हीरोहाण्डा सीडी डीलक्स सं0 डीएल 75 बीडी 5778 की डिग्गी से 1.2 किग्रा0 गांजा बरामद हुआ। थाना जायस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अनीश उर्फ शेरा पुत्र मो0 फिरोज उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बेहटा मुर्तजा थाना जायस जनपद अमेठी।
2. सैफ पुत्र मो0 समीम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला जेर मस्जिद हटिया थाना जायस जनपद अमेठी।

बरामदगी-

1. मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेण्डर बिना नं0
2. पैशन एक्स प्रो यूपी 70 सीएन 6668
3. हीरोहाण्डा सीडी डीलक्स सं0 डीएल 75 बीडी 5778
4. हीरो स्पेलेण्डर यूपी 44 पी 2160
5. हीरो सुपर स्पेलेण्डर यूपी 33 एएक्स 8809

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0136/22 धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 137/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना जायस जनपद अमेठी
2. का0 पवन कुमार पंकज थाना जायस जनपद अमेठी।
3. का0 आनन्द वर्मा थाना जायस जनपद अमेठी।
4. का0 सनोज कुमार थाना जायस जनपद अमेठी।
5. का0 लवकुश थाना जायस जनपद अमेठी।